

दिल्ली में जनवादी मंच द्वारा झंडा वंदन



नई दिल्ली। 69 वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल कला मंच, नई दिल्ली एवं जनवादी नौजवान सभा की ओर से एक ओज कवि सम्मेलन का आयोजन का. जगदीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में मोलड़बंद स्कूल के पास अंबेडकर पार्क में संपन्न हुआ। अतिथि के रूप में डी.यू.के. प्रो. नील गगन सिंह एवं अदीति दूबे थी। कवि सम्मेलन का शुरुआत मंच के अध्यक्ष सोनू गुप्ता एवं समाजसेवी व कवि डा. सत्य प्रकाश पाठक के दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसके बाद ग्रेटर नोयडा से पधारी डा. सीमा गुप्ता शारदा कवि सम्मेलन का आगाज सरस्वति वंदना से किया। इशरार अहमद एवं जय प्रकाश गौतम ने –अपनी ओज कविताओं से दर्शकों का मन मोह लिया। आकाश पागल ने तिरंगा को सलाम कहा तो, अमृता रानी ने भी आगे ओज कवितायें पढ़ी। रवि शंकर, कृपा शंकर तथा महेन्द्र प्रीतम ने कड़ी को संभाला। संस्था के सचिव लाल बिहारी लाल ने कहा कि- आजादी का जश्न मनायें आओ मिलकर हम और आप, इसे अक्षुण्ण बनाये आज आओ मिलकर हम और आप।

डा. सत्य प्रकाश पाठक, सुरेश मिश्र अपराधी श्याम जी दूबे, ब्रजेश शर्मा, आर.एन. शर्मा ने भी अपनी-अपनी कविताओं से सबका मन मोह लिया। डा. सीमा गुप्ता ने कहा कि- मुबारक हो ये प्यारा-सा दिन साथियों, आज मस्ती में झूमों गाओं साथियो। मंच संचालन फरीदाबाद से पधारे कवि शिव प्रभाकर ओझा ने किया और कहा- तिरंगा मेरी जान है तिरंगा मेरी शान जिस पर नाज करें सारा हिन्दुस्तान। समाजसेवी आत्मा राम पाचाल ने भी सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ दी। क्षेत्र के सैकड़ों गन्य मान्य लोग मौजूद थे उनमें पी.एस. भारती, मलखान सैफी, ललित शर्मा, पंकज वशिष्ठ, आर.एन. शर्मा, वेद प्रकाश जटिया, काकेश महतो, पी.के. गौतम, तुलसी दास शर्मा, पुनीत ओझा, भगत सिंह, हेश बच्छराज, आदी मौजूद थे। इस अवसर पर लाल कला मंच एवं जनवादी नौजवान सभा की ओर से आयोजित निबंध प्रतियोगिता शामिल बच्चों को सम्मानित भी किया गया। अंत में संस्था के अध्यक्ष सोनू गुप्ता ने आये हुए सभी कवियों एवं आगन्तुकों को 69 वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दिया। फोट